

शासकीय नवीन महाविद्यालय - बारी, जिला तुरफ (४०३०)

आंतरिक मुल्यांकन परीक्षा २०२१-२२

B.Sc. (Part III) Mathematics

Paper - Second

Abstract Algebra

प्रो : प्रत्येक unit से कोई दो प्रश्न हल कीजिए।
सभी unit अनिवार्य हैं शंक अंक समान हैं।

maximum marks : 50

(UNIT-1)

- ① मान ले R^+ सभी धन वास्तविक संख्याओं का
गुणात्मक समूह है। $f: R^+ \rightarrow R^+$ को $f(x) = x^2$,
 $\forall x \in R^+$ से परिभ्रषित करते हैं। सिद्ध कीजिए कि
 f एक स्वाकृति है।
- ② दर्शाइए कि $x \rightarrow x^{-1}$ समूह G का एक
स्वाकृति है, यदि और केवल यदि G
आवृत्ति है।
- ③ यदि $O(G) = 56$, तो सिद्ध कीजिए कि $7, 1$ या 4
सिलो उपसमूह रखता है। उन्हें की स्थिति में
सिद्ध करो कि G सब प्रसमानी 2-सिलो उपसमूह
रखता है।

(UNIT-2)

- ① वलय को परिभाषित कीजिए तथा इशाविस के स्वतंत्र क्रमबिनिय वलय का समाकारी व्याप्रविधि भी क्रमबिनिय वलय होता है।
- ② सिद्ध कीजिए कि वलय $(R, +, \cdot)$ की दो शुणाखावलियों का सर्वांग R की एक शुणाखावली होता है।
- ③ यदि $f(x) = 3x^0 + 4x + 2x^2$, तथा $g(x) = 1x^0 + 3x + 4x^2 + 2x^3$ वलय $(I_5, +_5, \circ_5)$ पर कोई दो क्रमपूर्ण हो, तो सात कीवियाँ होती हैं।
- i) $f(x) + g(x)$
 - ii) $f(x) \cdot g(x)$.

(UNIT-3)

- ① किसी सदिश समाप्ति $V(F)$ के एक अविकलन समुच्चय W के लिए V का एक समुच्चय समाप्ति होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त उपलब्ध होता है।
- ① $\alpha \in W, \beta \in W \Rightarrow \alpha - \beta \in W$.
- ② $\alpha \in F, \beta \in W \Rightarrow \alpha\beta \in W$

- (2) जाव्य कीजिए कि सदिशों $(2, 3, -1)$, $(-1, 4, -2)$ रूप $(1, 18, -4)$ का समुच्चय सदिश समाई $V_3(\mathbb{R})$ में शारीरिक है या परतंत है।
- (3) यदि W_1 और W_2 एक परिभ्रान्ति विधीय सदिश समाई $V(F)$ की दो उपसमाई हैं, तब क्या कीजिए कि
- $$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2).$$

(UNIT- 4)

- (1) सभा कि \mathbb{R}^3 बर T एक शारीरिक संकारक है, जो
- $$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3, -x_1, -x_2 - 4x_3, 2x_1, -x_3)$$
- से परिभ्रान्ति है। आदाय
- $B = \{v_1, v_2, v_3\}$
- बहुत
- $$v_1 = (1, 1, 1), v_2 = (0, 1, 1), v_3 = (1, 0, 1)$$
- के सापेक्ष T का आवृद्ध सात कीजिए।
- (2) किसी आवृद्ध $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ के आवृद्धन
- मानो के संगत सभा A^{-1} मान कीजिए।
- (3) लंबांज के समानयन विधि से डिवाली समाचार
- $$q = x_1^2 + 2x_2^2 - 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 8x_1x_3$$
- को विद्युत समाचार सात में समानयन कीजिए। अब, सूचकांक और विनिका सात कीजिए।

(UNIT-5)

① यदि α और β किसी आंतर गुणात्र समिक्षा $V(F)$ के सदिश हैं, तब $\frac{d}{dx} \alpha \cdot \beta$ कि -

$$\|\alpha + \beta\|^2 + \|\alpha - \beta\|^2 = 2\|\alpha\|^2 + 2\|\beta\|^2$$

② $V_4(R)$ के रूखीकृत स्वतंत्र सदिशों का समुच्चय -

$B = \{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ का प्रसमाचय जाँचिए
समुच्चय सात की बिंदु, जहाँ

$$\beta_1 = (1, 0, 1, 1)$$

$$\beta_2 = (-1, 0, -1, 1)$$

$$\beta_3 = (0, -1, 1, 1)$$

③ माना $V(t)$ एकाइ अवलोकन $0 \leq t \leq 1$ पर समीकृत सतत समिक्षा मानक फलनों को सदिश समाख्य है। यदि $f(t), g(t) \in V$

तथा $\{f(t), g(t)\} = \int_0^1 f(t) \cdot \overline{g(t)} dt$,
तब क्या कीजिए कि V आंतर गुणात्र समाख्य है।

\xrightarrow{x}